



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 144-2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 26, 2019 (BHADRA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग शाखा) विभाग

प्रारम्भिक अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2019

संख्या 9523.— चूंकि हरियाणा सरकार को यह प्रतीत होता है कि कुल 0.4125 एकड़ भूमि गांव गधौली तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला में लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्थात् उच्च स्तरीय पुल 9 स्पैन 18.75 मीटर प्रत्येक मारकण्डा नदी क्रोसिंग नारायणगढ़ से सड़ौरा सड़क का बॉंध निर्माण (जो वर्ष 1996-97 में निर्मित है) (गांव गधौली) तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा किया गया था तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/प्रारम्भिक अन्वेषण हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2018 के नियम 9 में यथा अधिकथित कलक्टर द्वारा गठित अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट/प्रारम्भिक अन्वेषण का संक्षिप्त-विवरण निम्न अनुसार है (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है): भूमि अर्जन के कारण कुल तीन (संख्या) परिवार विस्थापित किए जाने सम्भावित हैं। ऐसे विस्थापन की अनिवार्यता के कारण नीचे दिए गए हैं:-

पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन नहीं बनता है को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए गांव गधौली तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला में 0.4125 एकड़ (3 कनाल 6 मरला) भूमि का टुकड़ा अर्थात् मानक माप 0.165 हेक्टेयर जिसके विस्तृत वर्णन निम्न अनुसार अर्जन के अधीन है:-

क्र० सं०	खसरा संख्या	हक की किस्म	भूमि की किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएं (करम में)			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	34 / 1 मिन	सह-हिस्सेदारी	गै०मु०	0.0125	श्री बलवन्त राय पुत्र श्री केशो राम, मकान न०. 1483, प्रोग्रेसिव सोसाईटी, सैक्टर-50बी, चण्डीगढ़।	5	6	1	6
2.	34 / 10 मिन	उपरोक्त	गै०मु०	0.00625		...	4	7	11
	I	उपरोक्त	गै०मु०	0.1125		7	7	34	28
	ठ	उपरोक्त	गै०मु०	0.00625		6	7	3	...

क्र० सं०	खसरा संख्या	हक की किस्म	भूमि की किस्म	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएं (करम में)			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
3.	35/6 मिन	उपरोक्त	गै०मु०	0.0125	श्री रचित वालिया पुत्र श्री राम कर्ण वालिया, वार्ड न०.3, नजदीक जैन मन्दिर, नारायणगढ़ (अम्बाला)	4	7	11	...
	I	उपरोक्त	गै०मु०	0.0125		...	7	7	11
	ठ	उपरोक्त	गै०मु०	0.00625		7	6	3	...
4.	35/15 मिन	उपरोक्त	गै०मु०	0.1062		9	6	20	23
	I	उपरोक्त	गै०मु०	0.075	श्री रोहित वालिया पुत्र श्री राम कर्ण वालिया, वार्ड न०.3, नजदीक जैन मन्दिर, नारायणगढ़ (अम्बाला)	6	9	17	14
5.	35/16/1 मिन	उपरोक्त	गै०मु०	0.050		7	7	14	11
	I	उपरोक्त	गै०मु०	0.0125		6	7	2	3
			कुल	0.4125	
वृक्ष	शून्य			ढांचा	
किस्म	शून्य		संख्या	किस्म		...	कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटर में)		

यह अधिसूचना, उन सभी के लिए जो इससे सम्बंधित हैं, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन की गई है।

भूमि का नक्शा कार्यालय समय के दौरान किसी कार्य दिवस को कलैक्टर हरियाणा लोक निर्माण विभाग अम्बाला/कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल, लोक निर्माण विभाग नारायणगढ़ (अम्बाला) के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है।

हरियाणा के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने, किसी भूमि को समतल करने, अवमृदा को खोदने या बेचने तथा सभी अन्य अपेक्षित कार्य करने के लिए अधिकारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग नारायणगढ़ (अम्बाला) तथा उसके कर्मचारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग नारायणगढ़ (अम्बाला) को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसी भूमि का अर्थात् विक्रय/क्रय इत्यादि हेतु कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा और कोई ऋण नहीं लेगा।

अर्जन के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, कलक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 15 में यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

कृते: राज्यपाल हरियाणा।

(हस्ता०)...

अधीक्षक अभियन्ता,

चंडीगढ़ वृत्त लोक निर्माण विभाग,
(भवन एवं सड़क) शाखा, चंडीगढ़।

स्थान: चण्डीगढ़:

दिनांक: 26 अगस्त, 2019.

HARYANA GOVERNMENT**PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS BRANCH) DEPARTMENT****Preliminary Notification**

The 26th August, 2019

No. 9523.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that a total of 0.4125 acres land is required in the Gadhauli Village Naraingarh Tehsil Ambala District for public purpose, namely, Construction of guide bund of H.L Bridge 9 span 18.75 mtr each over Markanda River crossing Naraingarh – Sadhaura Road (SH-01) in km 34.00 on U/S toward Sadhaura (Already constructed during 1996-97) (in village Gadhauli) Tehsil Naraingarh in District Ambala Social Impact Assessment Study was carried out by Social Impact Assessment Unit and a report submitted/preliminary investigation was conducted by a team of officers constituted by the Collector as laid down under rule 9 of the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2018. The summary of the Social Impact Assessment report/preliminary investigation is as follows (Attach copy of SIA report):

A total 3 (no.) families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below.

No Rehabilitation / Resettlement is involved as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in the Gadhauli village of Naraingarh Tehsil Ambala District a piece of land measuring, 0.4125 acres viz, 0.165 hectare i.e 3 kanal 6 marla of standard measuring, whose detail description is as following, is under acquisition:

Sr. No	Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area under Acquisition (in acre)	Name and Address of person interested	Boundaries (in karam)			
						N.	S.	E.	W
1.	34/1 min	Co-shares	G.M	0.0125	Sh. Balwant Rai S/o Sh. Kesho Ram R/o #1483, Progressive Society, Sector-50B, Chandigarh Sh. Rachit Walia S/o Sh. Ram Karan Walia R/o Ward No.3, Near Jain Mandir, Naraingarh (Ambala), Sh. Rohit Walia S/o Sh. Ram Karan Walia R/o Ward No.3, Near Jain Mandir, Naraingarh (Ambala)	5	6	1	6
2.	34/10 min	--do--	G.M	0.00625		--	4	7	11
	A	--do--	G.M	0.1125		7	7	34	28
	B	--do--	G.M	0.00625		6	7	3	--
3.	35/6 min	--do--	G.M	0.0125		4	7	11	--
	A	--do--	G.M	0.0125		--	7	7	11
	B	--do--	G.M	0.00625		7	6	3	--
4.	35/15 min	--do--	G.M	0.1062		9	6	20	23
	A	--do--	G.M	0.075		6	9	17	14
5.	35/16/1 min	--do--	G.M	0.050		7	7	14	11
	A	--do--	G.M	0.0125		6	7	2	3
			Total	0.4125					
	Tree	Nil		Structure	--	--	--	--	--
	Variety	Nil	Number	Type	--	Plinth area (in sqm)			

This notification is made under the provisions of sub-section (i) of section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), to all to whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector Haryana PWD B&R Ambala Cantt. / Executive Engineer Provincial Division PWD B&R Naraingarh (Ambala) on any working day during the working hours.

The Governor of Haryana hereby authorizes to the Officers of Haryana PWD B&R Naraingarh (Ambala) and his staff of Haryana PWD B&R Naraingarh (Ambala) to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil & do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within a period of sixty days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector.

For and on behalf of Governor of Haryana.

Place: Chandigarh:
The 26th August, 2019.

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Chd. Circle, Hr., PW (B&R)
Chandigarh.